



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 546]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 12, 2007/अग्रहायण 21, 1929

No. 546]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 12, 2007/AGRAHAYANA 21, 1929

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

( कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2007

सा.का.नि. 765(अ).—भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम 4 के उप-नियम 2 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1966 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

(i) इन विनियमों का नाम भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) द्वितीय संशोधन विनियमावली, 2007 है।

(ii) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद का संख्या का नियतन) विनियमावली, 1966 की अनुसूची में "पश्चिम बंगाल" शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

पश्चिम बंगाल

1. राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद	71
प्रधान, मुख्य वन संरक्षक	1
प्रधान, मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव और जैव विविधता संरक्षण)	1
अपर प्रधान, मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव और जैव विविधता संरक्षण)	1
अपर प्रधान, मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन और विकास और सतर्कता)	1
अपर प्रधान, मुख्य वन संरक्षक (मृदा संरक्षण और विस्तार वानिकी)	1
अपर मुख्य वन संरक्षक (वित्त)	1
मुख्य वन संरक्षक (पश्चिम)	1
मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना और निगरानी)	1
मुख्य वन संरक्षक (सामाजिक वानिकी)	1
मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव)	1
मुख्य वन संरक्षक (उत्तर)	1
मुख्य वन संरक्षक (दक्षिण) और निदेशक (सुन्दरवन जैव मण्डल रिजर्व)	1

मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान)	1
मुख्य वन संरक्षक (मृदा संरक्षण)	1
मुख्य वन संरक्षक, मुख्यालय और नाडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम	1
मुख्य वन संरक्षक (वित्त)	1
मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक प्रबंधन प्रकोष्ठ	1
मुख्य वन संरक्षक, लोक शिकायत, कानून और सूचना	1
वन संरक्षक, क्षेत्रीय सर्किल, अर्थात् उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व	4
वन संरक्षक, वन्य जीवन (उत्तर)	1
वन संरक्षक, वन्य जीव (मुख्यालय और दक्षिण)	1
वन संरक्षक और संयुक्त निदेशक (सुन्दरवन जैव मण्डल रिजर्व)	1
फील्ड निदेशक (बक्सर टाईगर रिजर्व)	1
फील्ड निदेशक (सुन्दरवन टाईगर रिजर्व)	1
वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी (उत्तर)	1
वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी (दक्षिण)	1
वन संरक्षक (अनुसंधान)	1
वन संरक्षक (विकास)	1
वन संरक्षक (कार्य योजना और जी.आई.एस.)	1
वन संरक्षक (निगरानी और मूल्यांकन)	1
वन संरक्षक, मृदा संरक्षण (उत्तर)	1
वन संरक्षक, मृदा संरक्षण (दक्षिण)	1
वन संरक्षक, शहरी और विहार वानिकी	1
उप-वन संरक्षक (क्षेत्रीय प्रभाग) अर्थात् :- बैकुण्ठपुर, बांकुरा (उत्तर), बांकुरा (दक्षिण), वीरभूम, बुरदवान, कूच बेहार, दार्जिलिंग, जलपाईगुडी, कुरसिआंग, मालदा, मिदनापुर (पूर्व), मिदनापुर (पश्चिम), नाडिया-मुर्शिदाबाद, 24-परगना (दक्षिण) और पुरुलिया	15
उप वनसंरक्षक, मृदा संरक्षण	3
उप वनसंरक्षक (कार्य योजना)	1
उप वनसंरक्षक (वन वृक्ष विज्ञान)	3
उप वनसंरक्षक, निगरानी (उत्तर)	1
उप वनसंरक्षक, निगरानी (दक्षिण)	1
उप वनसंरक्षक (आयोजना और आंकड़े)	2
सहायक मुख्य वन संरक्षक	1
उप-वन संरक्षक (वन्य जीवन)	3
उप-वन संरक्षक और उप-फील्ड निदेशक (बक्सर टाईगर रिजर्व - पूर्व)	1
उप-वन संरक्षक और उप-फील्ड निदेशक (बक्सर टाईगर रिजर्व - पश्चिम)	1
उप-वन संरक्षक, (सुन्दरवन टाईगर रिजर्व)	1
निदेशक (पश्चिम बंगाल वन विद्यालय)	1
उप-वन संरक्षक (शहरी भूमि अनुसंधान)	1
2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व [उपर्युक्त (1) मद का 20% की दर से]	14
3. राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व (उपर्युक्त 1 मद का 25% की दर से)	17
4. प्रशिक्षण रिजर्व [उपर्युक्त (1) मद का 3.5 की दर से]	2
5. छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व (उपर्युक्त 1 मद का @16.5%)	11

6. भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियमावली, 1966 के नियम 8 के अन्तर्गत पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद (उपर्युक्त 1, 2, 3 और 4 मदों के 33-1/3 प्रतिशत से अधिक नहीं)	34
7. सीधे भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद 1+2+3+4+5-6) कुल प्राधिकृत संख्या	81
<b>कुल प्राधिकृत संख्या</b>	<b>115</b>

[सं.-16016/02/2007-अ.भा.से. II-क]

चैतन्य प्रसाद, निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी :- इस अधिनियम के जारी होने से पूर्व भारतीय वन सेवा पश्चिम बंगाल संवर्ग की कुल प्राधिकृत संख्या 112 थी।

टिप्पणी :- मुख्य विनियम दिनांक 31-10-1966 की अधिसूचना संख्या 6/1/66-अ.भा.से. (IV) के अन्तर्गत दिनांक 31-10-1966 की संख्या सा.का.नि. 1672 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियम, 1966 में संशोधन निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं द्वारा किए गए हैं :-

क्र. सं.	सा.का.नि.	प्रकाशन की तिथि	(1)	(2)	(3)
(1)	(2)	(3)			
1.	1673	31-10-66	26.	812	03-08-74
2.	17	07-01-67	27.	2227	16-08-75
3.	653	06-05-67	28.	71	17-01-76
4.	654	06-05-67	29.	407(अ)	16-06-76
5.	689	13-05-67	30.	1064(अ)	24-07-76
6.	1683	08-06-68	31.	444(अ)	06-07-76
7.	1887	09-08-69	32.	750(अ)	03-08-76
8.	80	17-01-70	33.	93(अ)	26-02-77
9.	485	21-03-70	34.	631(अ)	05-10-77
10.	545	04-04-70	35.	13(अ)	06-01-78
11.	1802	24-10-70	36.	360(अ)	13-07-78
12.	135	24-01-71	37.	436(अ)	29-08-78
13.	136	24-01-71	38.	486(अ)	25-08-80
14.	665	08-05-71	39.	562(अ)	30-09-80
15.	45(अ)	20-01-72	40.	626(अ)	03-11-80
16.	47(अ)	20-01-72	41.	631(अ)	04-11-80
17.	48(अ)	20-01-72	42.	20(अ)	16-01-81
18.	478(अ)	04-02-72	43.	31(अ)	23-01-81
19.	192(अ)	02-04-73	44.	84(अ)	27-02-81
20.	321(अ)	27-06-73	45.	456	09-05-81
21.	391(अ)	10-08-73	46.	360(अ)	23-05-81
22.	142	09-02-74	47.	376(अ)	02-06-81
23.	28(अ)	02-02-74	48.	386(अ)	09-06-81
24.	273(अ)	17-06-74	49.	602(अ)	16-11-81
25.	300(अ)	05-07-74	50.	604(अ)	17-11-81

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
51.	653(अ)	10-12-81	73.	619	15-08-87
52.	657(अ)	11-12-81	74.	802	31-10-87
53.	294(अ)	01-04-82	75.	826	07-11-87
54.	354(अ)	26-04-82	76.	835	14-11-87
55.	356(अ)	27-04-82	77.	836	14-11-87
56.	478(अ)	31-05-82	78.	432(अ)	06-04-88
57.	530(अ)	30-08-82	79.	546(अ)	04-05-88
58.	24(अ)	12-01-83	80.	404	21-05-88
59.	126(अ)	28-02-85	81.	834(अ)	03-08-88
60.	308(अ)	26-03-85	82.	352(अ)	10-03-89
61.	327(अ)	29-03-85	83.	832	11-11-89
62.	489(अ)	12-06-85	84.	916	16-12-89
63.	266	12-04-86	85.	933	30-12-89
64.	654	30-08-86	86.	590	22-09-90
65.	763	20-09-86	87.	603	29-09-90
66.	798	27-09-86	88.	728	08-12-90
67.	796	27-09-86	89.	730	08-12-90
68.	835	04-10-86	90.	125(अ)	05-03-91
69.	837	04-10-86	91.	246	13-04-91
70.	880	18-10-86	92.	473	24-08-91
71.	164	14-03-87	93.	374	03-11-91
72.	407	30-05-87			

## MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2007

**G.S.R. 765(E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with Sub-rule 2 of Rule 4 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966, the Central Government, in consultation with the Government of West Bengal hereby makes the following regulations further to amend the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966, namely :—

1. (i) These Regulations shall be called the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Second Amendment Regulations, 2007.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966, for the heading 'West Bengal' and the entries occurring thereunder, the following shall be substituted, namely :—

**WEST BENGAL**

<b>I. Senior Posts under the State Government</b>	<b>71</b>
Principal Chief Conservator of Forests	1
Principal Chief Conservator of Forests (Wild Life & Bio diversity Conservation)	1
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Wild Life & Bio diversity Conservation)	1
Addl. PCCF (Human Resource & Development & Vigilance)	1
Addl. PCCF (Soil Conservation & Extension Forestry)	1
Addl. PCCF (Finance)	1
Chief Conservator of Forests (West)	1
Chief Conservator of Forests (Working Plan and Monitoring)	1
Chief Conservator of Forests (Social Forestry)	1
Chief Conservator of Forests (Wildlife)	1
Chief Conservator of Forests (North)	1
Chief Conservator of Forests (South) and Director, (Sunderban Bio-Sphere Reserve)	1
Chief Conservator of Forests (Research)	1
Chief Conservator of Forests (Soil Conservation)	1
Chief Conservator of Forests, Headquarters and Nodal Officer, Forest Conservation Act	1
Chief Conservator of Forests (Finance)	1
Chief Conservator of Forests, Personnel Management Cell	1
Chief Conservator of Forests, Public Grievance Law & Information	1
Conservator of Forest (Territorial Circles, namely - North, South, West and East)	4
Conservator of Forests, Wildlife (North)	1
Conservator of Forests, Wildlife (Headquarters and South)	1
Field Director (Buxa Tiger Reserve)	1
Field Director (Sunderbans Tiger Reserve)	1
Conservator of Forests and Joint Director (Sunderbans Bio-sphere Reserve)	1
Conservator of Forests, Social Forestry (North)	1
Conservator of Forests, Social Forestry (South)	1
Conservator of Forests (Research)	1
Conservator of Forests (Development)	1
Conservator of Forests (Working Plan & GIS)	1
Conservator of Forests (Monitoring & Evaluation)	1
Conservator of Forests Soil Conservation (North)	1
Conservator of Forests, Soil Conservation (South)	1
Conservator of Forests, Urban & Recreation Forestry	1
Deputy Conservator of Forests (Territorial Divisions) namely: Baikunthapur, Bankura (North), Bankura (South), Birbhum, Burdwan, Cooch Behar, Darjeeling, Jalpaiguri, Kurseong, Malda, Midnapur (East), Midnapur (West), Nadia-Murshidabad, 24-Parganas (South) and Purulia	15
Deputy Conservator of Forests Soil Conservation	3
Deputy Conservator of Forests (Working Plan)	1
Deputy Conservator of Forests (Silviculture)	3
Deputy Conservator of Forests, Monitoring (North)	1
Deputy Conservator of Forests, Monitoring (South)	1
Deputy Conservator of Forests, (Planning and Statistics)	2
Assistant Chief Conservator of Forests	1
Deputy Conservator of Forests (Wildlife)	3
Deputy Conservator of Forests and Deputy Field Director (Buxa Tiger Reserve - East)	1

Deputy Conservator of Forests and Deputy Field Director (Buxa Tiger Reserve - West)	1
Deputy Conservator of Forests (Sunderbans Tiger Reserve)	1
Director (West Bengal Forest School)	1
Deputy Conservator of Forests, (Urban Land Research)	1
<b>2. Central deputation reserve [ @ 20% of item (1) above]</b>	<b>14</b>
<b>3. State deputation reserve [ @ 25% of item (1) above]</b>	<b>17</b>
<b>4. Training Reserve [ @ 3.5% of item (1) above]</b>	<b>2</b>
<b>5. Leave Reserve and Junior Posts Reserve [ @ 16.5% of item (1) above]</b>	<b>11</b>
<b>6. Posts to be filled up by promotion [Under Rule 8 of IFS (Recruitment) Rules, 1966 not exceeding 33 1/3% of items 1, 2, 3 &amp; 4 above.]</b>	<b>34</b>
<b>7. Posts to be filled up Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6)</b>	<b>81</b>
<b>Total Authorized Strength</b>	<b>115</b>

[No. 16016/02/2007-AIS II-A]

CHAITANYA PRASAD, Director (Services)

**Note :** Prior to the issue of this notification, the total authorised strength of the West Bengal Cadre of Indian Forest Service was 112.

**Note :** The Principal regulations were notified *vide* notification No. 6/1/66-AIS (IV), dated 31-10-1966 as No. G.S.R. 1672 in the Extraordinary Gazette of India dated 31-10-1966 and Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966 have been amended, *vide* the following G.S.R. numbers and dates respectively :

S. No.	GSR No.	Date of Publication	(1)	(2)	(3)
(1)	(2)	(3)			
			26.	812	03-08-74
1.	1673	31-10-66	27.	2227	16-08-75
2.	17	07-01-67	28.	71	17-01-76
3.	653	06-05-67	29.	407(E)	16-06-76
4.	654	06-05-67	30.	1064(E)	24-07-76
5.	689	13-05-67	31.	444(E)	06-07-76
6.	1683	08-06-68	32.	750(E)	03-08-76
7.	1887	09-08-69	33.	93(E)	26-02-77
8.	80	17-01-70	34.	631(E)	05-10-77
9.	485	21-03-70	35.	13(E)	06-01-78
10.	545	04-04-70	36.	360(E)	13-07-78
11.	1802	24-10-70	37.	436(E)	29-08-78
12.	135	24-01-71	38.	486(E)	25-08-80
13.	136	24-01-71	39.	562(E)	30-09-80
14.	665	08-05-71	40.	626(E)	03-11-80
15.	45(E)	20-01-72	41.	631(E)	04-11-80
16.	47(E)	20-01-72	42.	20(E)	16-01-81
17.	48(E)	20-01-72	43.	31(E)	23-01-81
18.	478(E)	04-02-72	44.	84(E)	27-02-81
19.	192(E)	02-04-73	45.	456	09-05-81
20.	321(E)	27-06-73	46.	360(E)	23-05-81
21.	391(E)	10-08-73	47.	376(E)	02-06-81
22.	142	09-02-74	48.	386(E)	09-06-81
23.	28(E)	02-02-74	49.	602(E)	16-11-81
24.	273(E)	17-06-74	50.	604(E)	17-11-81
25.	300(E)	05-07-74			

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
51.	653(E)	10-12-81	73.	619	15-08-87
52.	657(E)	11-12-81	74.	802	31-10-87
53.	294(E)	01-04-82	75.	826	07-11-87
54.	354(E)	26-04-82	76.	835	14-11-87
55.	356(E)	27-04-82	77.	836	14-11-87
56.	478(E)	31-05-82	78.	432(E)	06-04-88
57.	530(E)	30-08-82	79.	546(E)	04-05-88
58.	24(E)	12-01-83	80.	404	21-05-88
59.	126(E)	28-02-85	81.	834(E)	03-08-88
60.	308(E)	26-03-85	82.	352(E)	10-03-89
61.	327(E)	29-03-85	83.	832	11-11-89
62.	489(E)	12-06-85	84.	916	16-12-89
63.	266	12-04-86	85.	933	30-12-89
64.	654	30-08-86	86.	590	22-09-90
65.	763	20-09-86	87.	603	29-09-90
66.	798	27-09-86	88.	728	08-12-90
67.	796	27-09-86	89.	730	08-12-90
68.	835	04-10-86	90.	125(E)	05-03-91
69.	837	04-10-86	91.	246	13-04-91
70.	880	18-10-86	92.	473	24-08-91
71.	164	14-03-87	93.	374	03-11-99
72.	407	30-05-87			

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2007

सा.का.नि. 766(अ).—भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 1968 के नियम 11 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 1968 में अगले संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

(i) इन नियमों का नाम भारतीय वन सेवा (वेतन) द्वितीय संशोधन नियमावली, 2007 है।

(ii) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 1968 में :—

(क) अनुसूची-III-क “राज्य सरकार के अधीन भारतीय वन सेवा के समय वेतनमान से ऊपर के वेतन वाले पदों में” तालिका के प्रथम कॉलम की पश्चिम बंगाल प्रविष्टि के लिए तथा दूसरे और तीसरे कॉलम में आने वाली तदनुसूची प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

## पश्चिम बंगाल

प्रधान, मुख्य वन संरक्षक	24050-650-26000 रुपये
प्रधान, मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव और जैव विविधता संरक्षण)	24050-650-26000 रुपये
अपर प्रधान, मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव और जैव विविधता संरक्षण)	22400-525-24500 रुपये
अपर प्रधान, मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन और विकास और सतर्कता)	22400-525-24500 रुपये
अपर प्रधान, मुख्य वन संरक्षक (मृदा संरक्षण और विस्तार वानिकी)	22400-525-24500 रुपये
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त)	22400-525-24500 रुपये
मुख्य वन संरक्षक (पश्चिम)	18400-500-22400 रुपये
मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना और निगरानी)	18400-500-22400 रुपये
मुख्य वन संरक्षक (सामाजिक वानिकी)	18400-500-22400 रुपये
मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव)	18400-500-22400 रुपये
मुख्य वन संरक्षक (उत्तर)	18400-500-22400 रुपये

मुख्य वन संरक्षक (दक्षिण) और निदेशक (सुन्दरवन जैव मण्डल रिजर्व)	18400-500-22400 रुपये
मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान)	18400-500-22400 रुपये
मुख्य वन संरक्षक (मृदा संरक्षण)	18400-500-22400 रुपये
मुख्य वन संरक्षक, मुख्यालय और नाडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम	18400-500-22400 रुपये
मुख्य वन संरक्षक, वित्त	18400-500-22400 रुपये
मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक प्रबंधन प्रकोष्ठ	18400-500-22400 रुपये
मुख्य वन संरक्षक, लोक शिकायत, कानून और सूचना	18400-500-22400 रुपये
वन संरक्षक, क्षेत्रीय सर्किल, अर्थात् उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व	16400-450-20000 रुपये
वन संरक्षक, वन्य जीवन (उत्तर)	16400-450-20000 रुपये
वन संरक्षक, वन्य जीव (मुख्यालय और दक्षिण)	16400-450-20000 रुपये
वन संरक्षक और संयुक्त निदेशक (सुन्दरवन जैव मण्डल रिजर्व)	16400-450-20000 रुपये
फील्ड निदेशक (बक्सर टाईगर रिजर्व)	16400-450-20000 रुपये
फील्ड निदेशक (सुन्दरवन टाईगर रिजर्व)	16400-450-20000 रुपये
वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी (उत्तर)	16400-450-20000 रुपये
वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी (दक्षिण)	16400-450-20000 रुपये
वन संरक्षक, (अनुसंधान)	16400-450-20000 रुपये
वन संरक्षक, (विकास)	16400-450-20000 रुपये
वन संरक्षक, (कार्य योजना और जी.आई.एस.)	16400-450-20000 रुपये
वन संरक्षक, (निगरानी और मूल्यांकन)	16400-450-20000 रुपये
वन संरक्षक, मृदा संरक्षण (उत्तर)	16400-450-20000 रुपये
वन संरक्षक, मृदा संरक्षण (दक्षिण)	16400-450-20000 रुपये
वन संरक्षक, शहरी और विहार वानिकी	16400-450-20000 रुपये
(ख) अनुसूची-III-ख में समय वेतनमान में, वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों सहित राज्य सरकार के अधीन भारतीय वन सेवा के धरिष्ठ समय वेतनमान में, वेतन वाले पद तालिका के पहले कॉलम में आने वाली "पश्चिम बंगाल" प्रविष्टि के लिए और दूसरे कॉलम में आने वाली तदनुरूपी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-	
उप वन संरक्षक (क्षेत्रीय प्रभाग) अर्थात् :- बैकुण्ठपुर, बांकुरा (उत्तर), बांकुरा (दक्षिण), वीरभूम, बुरदवान, कूच बेहार, दार्जिलिंग, जलपाईगुडी, कुरसिआंग, मालदा, मिदनापुर (पूर्व), मिदनापुर (पश्चिम), नाडिया-मुर्शीदाबाद, 24-परगना (दक्षिण) और पुरुलिया	
उप-वन संरक्षक (मृदा संरक्षण)	
उप-वन संरक्षक (कार्य योजना)	
उप-वन संरक्षक (वन वृक्ष विज्ञान)	
उप-वन संरक्षक निगरानी (उत्तर)	
उप-वन संरक्षक निगरानी (दक्षिण)	
उप-वन संरक्षक (आयोजना और आंकड़े)	
सहायक मुख्य वन संरक्षक	
उप-वन संरक्षक (वन्य जीवन)	
उप-वन संरक्षक और उप-फील्ड निदेशक (बक्सर टाईगर रिजर्व - पूर्व)	
उप-वन संरक्षक और उप-फील्ड निदेशक (बक्सर टाईगर रिजर्व - पश्चिम)	
उप-वन संरक्षक (सुन्दरवन टाईगर रिजर्व)	
निदेशक (पश्चिम बंगाल वन विद्यालय)	
उप-वन संरक्षक (शहरी भूमि अनुसंधान)	

[सं. 16016/02/2007-अ.भा.से. II-ख]

चैतन्य प्रसाद, निदेशक (सेवाएँ)

टिप्पणी :- मुख्य नियम दिनांक 2-3-1968 की अधिसूचना संख्या 2/11/65-अभासे (IV) के अन्तर्गत दिनांक 16-3-1968 की सा.का.नि. संख्या 482 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। बाद में भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 1968 में संशोधन निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं और तारीखों के द्वारा किए गए थे :-



क्र. सं.	सा.का.नि.	दिनांक	(1)	(2)	(3)
(1)	(2)	(3)			
			35.	773	09-06-79
1.	1830	12-10-68	36.	487(अ)	25-08-80
2.	1831	12-10-68	37.	563(अ)	30-09-80
3.	124	18-01-69	38.	566(अ)	01-10-80
4.	770	15-03-69	39.	1075	18-10-80
5.	1269	31-05-69	40.	1135	01-1-80
6.	2176	13-09-69	41.	827(अ)	03-11-80
7.	603	11-04-70	42.	632(अ)	04-11-80
8.	758	09-05-70	43.	22(अ)	17-01-81
9.	138(अ)	24-01-71	44.	32(अ)	23-01-81
10.	662	08-05-71	45.	361(अ)	23-05-81
11.	22(अ)	11-01-72	46.	377(अ)	02-06-81
12.	46(अ)	20-01-72	47.	387(अ)	09-06-81
13.	493	29-04-72	48.	603(अ)	15-11-81
14.	401(अ)	02-09-72	49.	605(अ)	17-11-81
15.	1313	14-10-72	50.	654(अ)	14-12-81
16.	1157	27-10-73	51.	295(अ)	01-04-82
17.	344	06-04-74	52.	355(अ)	26-04-82
18.	472(अ)	15-11-74	53.	357(अ)	27-04-82
19.	781	23-06-75	54.	439(अ)	31-05-82
20.	408(अ)	16-06-75	55.	531(अ)	20-08-82
21.	2228	23-08-75	56.	25(अ)	12-01-83
22.	251(अ)	03-08-76	57.	479(अ)	09-06-83
23.	2268	23-08-75	58.	835(अ)	08-11-83
24.	2558	25-10-75	59.	32	21-01-84
25.	832(अ)	02-07-70	60.	119	11-02-84
26.	14(अ)	06-01-76	61.	94(अ)	19-02-85
27.	445(अ)	06-07-76	62.	127(अ)	28-02-85
28.	1285	01-10-77	63.	309(अ)	26-03-85
29.	632(अ)	05-10-77	64.	328(अ)	29-03-85
30.	696	03-06-78	65.	490(अ)	12-06-85
31.	361(अ)	13-07-78	66.	204(अ)	14-02-86
32.	362(अ)	13-07-78	67.	267	12-04-86
33.	935	29-07-78			
34.	437(अ)	29-08-78			

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
68.	665	30-08-86	83.	433(3)	06-04-88
69.	764	20-09-86	84.	547(3)	04-05-88
70.	779	27-09-86	85.	835(3)	03-08-88
71.	797	27-09-86	86.	353(3)	10-03-89
72.	830	04-10-86	87.	833	11-11-89
73.	836	04-10-86	88.	917	16-12-89
74.	881	18-10-86	89.	934	30-12-89
75.	165	14-03-87	90.	589	22-09-90
76.	286(3)	13-03-87	91.	604	29-09-90
77.	408	30-05-87	92.	727	08-12-90
78.	618	15-05-87	93.	729	18-12-90
79.	801	31-10-87	94.	126(3)	05-03-91
80.	827	07-11-87	95.	474	24-08-91
81.	837	14-10-87	96.	375	03-11-99
82.	838	14-11-87	97.	141	29-03-2000

## NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2007

**G.S.R. 766(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with Rule 11 of the Indian Forest Service (Pay) Rules, 1968, the Central Government, in consultation with the Government of West Bengal hereby makes the following rules further to amend the Indian Forest Service (Pay) Rules, 1968, namely :—

1. (i) These Rules shall be called the Indian Forest Service (Pay) Second Amendment Rules, 2007.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In The Indian Forest Service (Pay) Rules, 1968 :—
- (a) In “Schedule III-A Posts carrying pay above the Time Scale in the Indian Forest Service under the State Governments” in the Table, for the entry ‘West Bengal’ appearing in the first column and the corresponding entry in the second and third columns, the following shall be substituted, namely :—

## WEST BENGAL

Principal Chief Conservator of Forests	Rs. 24050-650-26000
Principal Chief Conservator of Forests (Wild Life & Bio-diversity Conservation)	Rs. 24050-650-26000
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Wild Life & Bio diversity Conservation)	Rs. 22400-525-24500
Addl. Principal Chief Conservator of Forests (Human Resource & Development & Vigilance)	Rs. 22400-525-24500
Addl. Principal Chief Conservator of Forests (Soil Conservation & Extension Forestry)	Rs. 22400-525-24500
Addl. Principal Chief Conservator of Forests (Finance)	Rs. 22400-525-24500
Chief Conservator of Forests (West)	Rs. 18400-500-22400
Chief Conservator of Forests (Working Plan and Monitoring)	Rs. 18400-500-22400
Chief Conservator of Forests (Social Forestry)	Rs. 18400-500-22400
Chief Conservator of Forests (Wildlife)	Rs. 18400-500-22400
Chief Conservator of Forests (North)	Rs. 18400-500-22400
Chief Conservator of Forests (South) and Director, (Sunderban Bio-Sphere Reserve)	Rs. 18400-500-22400
Chief Conservator of Forests (Research)	Rs. 18400-500-22400
Chief Conservator of Forests (Soil Conservation)	Rs. 18400-500-22400
Chief Conservator of Forests, Headquarters and Nodal Officer, Forest Conservation Act	Rs. 18400-500-22400

Chief Conservator of Forests, Finance	Rs. 18400-500-22400
Chief Conservator of Forests, Personnel Management Cell	Rs. 18400-500-22400
Chief Conservator of Forests, Public Grievance Law & Information	Rs. 18400-500-22400
Conservator of Forest (Territorial Circles, Namely—North, South, West and East)	Rs. 16400-450-20000
Conservator of Forests, Wildlife (North)	Rs. 16400-450-20000
Conservator of Forests, Wildlife (Headquarters and South)	Rs. 16400-450-20000
Conservator of Forests and Joint Director (Sunderbans Bio-sphere Reserve)	Rs. 16400-450-20000
Field Director (Buxa Tiger Reserve)	Rs. 16400-450-20000
Field Director (Sunderbans Tiger Reserve)	Rs. 16400-450-20000
Conservator of Forests, Social Forestry (North)	Rs. 16400-450-20000
Conservator of Forests, Social Forestry (South)	Rs. 16400-450-20000
Conservator of Forests (Research)	Rs. 16400-450-20000
Conservator of Forests (Development)	Rs. 16400-450-20000
Conservator of Forests (Working Plan & GIS)	Rs. 16400-450-20000
Conservator of Forests (Monitoring & Evaluation)	Rs. 16400-450-20000
Conservator of Forests, Soil Conservation (North)	Rs. 16400-450-20000
Conservator of Forests, Soil Conservation (South)	Rs. 16400-450-20000
Conservator of Forests, Urban & Recreation Forestry	Rs. 16400-450-20000

(b) In Schedule III-B: Posts carrying pay in the senior time scale of the Indian Forest Service under the State Governments including posts carrying special pay in addition to pay in the time scale for the entry 'West Bengal' occurring in the first column and the corresponding entries in the Second column, the following shall be substituted, namely:—

Deputy Conservator of Forests (Territorial Divisions) namely: Baikunthapur, Bankura (North), Bankura (South), Birbhum, Burdwan, Cooch Behar, Darjeeling, Jalpaiguri, Kurseong, Malda, Midnapur (East), Midnapur (West), Nadia-Murshidabad, 24-Parganas (South) and Purulia

Deputy Conservator of Forests (Soil Conservation)

Deputy Conservator of Forests (Working Plan)

Deputy Conservator of Forests (Silviculture)

Deputy Conservator of Forests, Monitoring (North)

Deputy Conservator of Forests, Monitoring (South)

Deputy Conservator of Forests (Planning and Statistics)

Assistant Chief Conservator of Forests

Deputy Conservator of Forests (Wildlife)

Deputy Conservator of Forests and Deputy Field Director (Buxa Tiger Reserve - East)

Deputy Conservator of Forests and Deputy Field Director (Buxa Tiger Reserve - West)

Deputy Conservator of Forests (Sunderbans Tiger Reserve)

Director (West Bengal Forest School)

Deputy Conservator of Forests (Urban Land Research)

[No. 16016/02/2007-AIS II-B]

CHAITANYA PRASAD, Director (Services)

Note: The Principal Rules were notified *vide* Notification No. 2/11/65-AIS (IV), dated 2-3-1968 as No. G.S.R. 482, dated 16-3-1968. The Indian Forest Service (Pay) Rules, 1968 have been subsequently amended *vide* the following G.S.R. numbers and dates respectively :

S. No.	G.S.R.	Date	(1)	(2)	(3)
(1)	(2)	(3)			
1.	1830	12-10-68	9.	138(E)	24-01-71
2.	1831	12-10-68	10.	662	08-05-71
3.	124	18-01-69	11.	22(E)	11-01-72
4.	770	15-03-69	12.	46(E)	20-01-72
5.	1269	31-05-69	13.	493	29-04-72
6.	2176	13-09-69	14.	401(E)	02-09-72
7.	603	11-04-70	15.	1313	14-10-72
8.	758	09-05-70	16.	1157	27-10-73
			17.	344	06-04-74
			18.	472(E)	15-11-74

	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1	73	23-06-75	59.	32	21-01-84
2	408(E)	16-06-75	60.	119	11-02-84
3	3238	23-08-75	61.	94(E)	19-02-85
4	251(E)	03-03-76	62.	127(E)	28-02-85
5	2208	23-08-75	63.	319(E)	26-03-85
6	2358	25-10-75	64.	328(E)	29-03-85
7	832(E)	02-07-76	65.	490(E)	12-06-85
8	144(E)	06-01-76	66.	204(E)	14-02-86
9	145(E)	06-07-76	67.	267	12-04-86
10	1284	01-10-77	68.	665	30-08-86
11	931(E)	05-10-77	69.	754	20-09-86
12	74	03-06-78	70.	779	27-09-86
13	360(E)	13-07-78	71.	777	27-09-86
14	367(E)	13-07-78	72.	856	04-10-86
15	935	29-07-78	73.	816	04-10-86
16	957(E)	29-08-78	74.	881	18-10-86
17	773	09-06-79	75.	943	14-03-87
18	487(E)	25-08-80	76.	286(E)	13-03-87
19	562(E)	30-09-80	77.	608	30-05-87
20	566(E)	01-10-80	78.	515	15-05-87
21	1075	18-10-80	79.	801	31-10-87
22	1135	01-1-80	80.	827	07-11-87
23	1157(E)	03-11-80	81.	937	14-10-87
24	632(E)	04-11-80	82.	833	14-11-87
25	22(E)	17-01-81	83.	433(E)	06-04-88
26	32(E)	23-01-81	84.	547(E)	04-05-88
27	251(E)	23-05-81	85.	835(E)	03-08-88
28	177(E)	02-06-81	86.	353(E)	10-03-89
29	387(E)	09-06-81	87.	333	11-11-89
30	603(E)	15-11-81	88.	917	16-12-89
31	605(E)	17-11-81	89.	934	20-12-89
32	644(E)	14-12-81	90.	26	21-09-90
33	255(E)	01-04-82	91.	12	09-09-90
34	153(E)	26-04-82	92.	177	03-11-90
35	57(E)	27-04-82	93.	136	18-11-90
36	499(E)	31-05-82	94.	138(E)	05-03-91
37	201(E)	20-08-82	95.	173	04-05-91
38	24(E)	12-01-83	96.	372	23-11-90
39	479(E)	09-06-83	97.	141	22-03-2090
40	235(E)	08-11-85			